



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1802]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 2017/आषाढ़ 7, 1939

No. 1802]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 2017/ASADHA 7, 1939

jy e=ky;

½jyos ckM½

vf/kl ipuk

नई दिल्ली, 27 जून, 2017

dk-vk- 2024½—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा ;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, उप-विभागीय अधिकारी (एस.डी.ओ.), भिवंडी, ठाणे, महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

वृद्धि

महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना, अर्थात् वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि का, संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण.

Øe l d; k	ftys dk uke	rkypk dk uke	xke dk uke	l o d; k l d; k	{k=Qy gDV; j ea
1/1½	1/2½	1/3½	1/4½	1/5½	1/6½
1/1)	ठाणे	भिवंडी	(1) कालवार	93 / 9	0.0110
				100 / 1	0.0390
				100 / 2	0.0110
			(2) पिंपळास	448ब (67ब)	0.0110
				102 / 1 (114 / 1)	0.0180
			(3) पाये	17 पैकी	0.1735
				18 पैकी	0.0783
				20 पैकी	0.0613
				21 पैकी	0.0870
				22 पैकी	0.0493
				34 पैकी	0.0361
				35 पैकी	0.0202
			(4) पायगाव	76 / 7	0.0577
				76 / 8	0.0393
				73 / 7	0.0794
				73 / 9	0.0723
				80 / 1	0.0260
			(5) मालोडी	96 पैकी (54 पैकी)	0.0250

[फा. सं. 2013/एलएमएल/II/12/8/डब्ल्यू सी/869]

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2017

S.O. 2024(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely Western Dedicated Freight Corridor in the district of Thane in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub-Divisional Officer (SDO), Bhiwandi, Thane, Maharashtra in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector and opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section-20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired, with or without structures, for the Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Thane in the State of Maharashtra.

Serial Number	Name of the District	Name of the Taluka	Name of the Village	Survey number	Area in Hectare
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	Thane	Bhiwandi	(1) Kalwar	93/9	0.0110
				100/1	0.0390
				100/2	0.0110
			(2) Pimplas	448B (67B)	0.0110
				102/1 (114/1)	0.0180
			(3) Paye	17 Pt.	0.1735
				18 Pt.	0.0783
				20 Pt.	0.0613
				21 Pt.	0.0870
				22 Pt.	0.0493
				34 Pt.	0.0361
				35 Pt.	0.0202
			(4) Payegaon	76/7	0.0577
				76/8	0.0393
				73/7	0.0794
				73/9	0.0723
				80/1	0.0260
			(5) Malodi	96 Pt. (54 Pt.)	0.0250

[F. No. 2013/LML/II/12/8/WC/869]

ACHAL JAIN, Executive Director (Land and Amenities-1)